

प्रेस नोट दिनांक 07.07.2021

थाना बारादरी जनपद बरेली ।

थाना बारादरी #Bareillypolice द्वारा दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 40 लाख रुपये व एक किलो पांच सौ ग्राम स्मैक (कीमत लगभग 1.5 करोड रुपये), तीन इलैक्ट्रॉनिक कांटे व एक अदद मोटर साइकिल बजाज डिस्कवर बरामद।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय एवं श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय बरेली शाद मिया खान के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया । जिसमें आज दिनांक 07.07.2021 को थाना बारादरी पुलिस द्वारा श्यामगंज चौराहे पर चैकिंग के दौरान एक मोटर साइकिल पर दो व्यक्ति सैटेलाइट की तरफ से आते दिखायी दिए जो हम पुलिस वालो को देखकर गाडी को पीछे मोडकर भागने का प्रयास किया। जिससे उनकी मोटरसाइकिल अनियन्त्रित होकर गिर गयी। जिनको हम पुलिस वालो द्वारा पकड लिया गया तथा उनकी निशांदाही पर 40 लाख रुपये व एक किलो पांच सौ ग्राम स्मैक, तीन इलैक्ट्रॉनिक कांटे बरामद किये गये। जिस पर थाना बारादरी, बरेली मे मु0अ0स0 544/21 धारा 8/21 NDPS Act वनाम 1.राजू पुत्र कल्लू उर्फ इस्तियाक 2.मुन्ना पुत्र कल्लू उर्फ इस्तियाक नि0 पदारथपुर थाना विथरी चैनपुर बरेली 3.मौके से फरार श्रीमती हफीजन पत्नी रफीक उर्फ मलिक निवासी कस्वा व थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । अभि0गण उपरोक्त शातिर किस्म के अपराधी है। गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तगणों को मा0न्यायालय भेजा जा रहा है ।

नाम पता अभियुक्तगण-

- 1.राजू पुत्र कल्लू उर्फ इस्तियाक नि0 पदारथपुर थाना विथरी चैनपुर बरेली । (गिरफ्तार)
- 2.मुन्ना पुत्र कल्लू उर्फ इस्तियाक नि0 पदारथपुर थाना विथरी चैनपुर बरेली । (गिरफ्तार)
- 3.श्रीमती हफीजन पत्नी रफीक उर्फ मलिक निवासी कस्वा व थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली । (मौके से फरार)

बरामदगी

1. एक किलो पांच सौ ग्राम स्मैक (कीमत लगभग 1.5 करोड रुपये) ।
2. चालीस लाख रुपये नगद ।
3. तीन इलैक्ट्रॉनिक कांटे छोटे ।
4. एक अदद मोटर साइकिल UP 25 AD 3507 बजाज डिस्कवर ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 श्री अजय कुमार शुक्ला चौकी प्रभारी श्यामगंज थाना बारादरी बरेली
2. उ0नि0 श्री नितेश कुमार शर्मा थाना बारादरी बरेली
3. उ0नि0 श्री कुमरेश त्यागी थाना बिथरीचैनपुर बरेली
4. कां0 1711 कपिल कुमार थाना बारादरी बरेली
5. का0 1966 राहुल कुमार थाना बिथरीचैनपुर बरेली
6. का0 2718 पिन्टु कुमार थाना बिथरीचैनपुर बरेली
7. रि0म0का0 उदिती थाना बारादरी बरेली

**प्रभारी निरीक्षक बारादरी
जनपद बरेली ।**